

मासिक अपराध प्रतिवेदन जुलाई-2012

माह जुलाई 2012 में राज्य की अपराध स्थिति सामान्य एवं नियंत्रण में रही है।
राज्य में आलोच्य माह, गत माह एवं वर्ष 2011 के माह जुलाई की तुलना में भारतीय दण्ड संहिता
(भा.द.सं.) के अन्तर्गत दर्ज अपराधों की तुलनात्मक स्थिति निम्न है:-

माहवार आपराधिक तुलनात्मक स्थिति (माह जुलाई 2011, जून 2012 एवं जुलाई 2012)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग			कमी / वृद्धि		प्रतिशत	
		जुलाई 2011	जून 2012	जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012
1	हत्या	157	158	153	-4	-5	-2.55	-3.16
2	हत्या का प्रयास	180	120	179	-1	59	-0.56	49.17
3	डकैती	3	3	3	0	0	0.00	0.00
4	लूट	64	69	89	25	20	39.06	28.99
5	व्यपहरण / अपहरण	332	329	344	12	15	3.61	4.56
6	बलात्कार	196	187	205	9	18	4.59	9.63
9	बलवा	66	54	79	13	25	19.70	46.30
7	नकबजनी	393	433	407	14	-26	3.56	-6.00
8	चोरी	1883	2190	2289	406	99	21.56	4.52
10	अन्य भा.द.सं.	12995	12078	13354	359	1276	2.76	10.56
11	योग भा.द.सं.	16269	15621	17102	833	1481	5.12	9.48

वर्ष 2012 में 2010 एवं 2011 की तुलना में माह जुलाई तक भा.द.सं. के अन्तर्गत दर्ज अपराधों की तुलनात्मक स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है:-

वर्षवार आपराधिक तुलनात्मक स्थिति वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 (माह जुलाई तक)

क्र.सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग (माह जुलाई)			कमी / वृद्धि		प्रतिशत	
		2010	2011	2012	2010 से 2012	2011 से 2012	2010 से 2012	2011 से 2012
1	हत्या	824	887	871	47	-16	5.70	-1.80
2	हत्या का प्रयास	976	953	916	-60	-37	-6.15	-3.88
3	डकैती	25	14	17	-8	3	-32.00	21.43
4	लूट	530	430	446	-84	16	-15.85	3.72
5	व्यपहरण / अपहरण	1930	2036	2070	140	34	7.25	1.67
6	बलात्कार	968	1146	1204	236	58	24.38	5.06
7	बलवा	628	451	386	-242	-65	-38.54	-14.41
8	नकबजनी	2879	2829	2795	-84	-34	-2.92	-1.20
9	चोरी	13224	12630	13710	486	1080	3.68	8.55
10	अन्य भा.द.सं.	76824	77362	80036	3212	2674	4.18	3.46
11	योग भा.द.सं.	98808	98738	102451	3643	3713	3.69	3.76

निस्तारण भा.द.सं.

आलोच्य वर्ष 2012 माह जुलाई तक भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज अपराधों के निस्तारण की स्थिति निम्नानुसार है:-

निस्तारण भा.द.सं. वर्ष 2012 (माह जुलाई तक)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग	एफ.आर. अदम वकू	अदम वकू प्रतिशत	एफ.आर. अन्य	कुल एफ.आर. (4+6)	चालान	चालानी प्रतिशत	पेन्डिंग अनुसंधान	पेन्डिंग प्रतिशत
1	हत्या	871	108	21.30	7	115	392	98.25	364	41.79
2	हत्या का प्रयास	916	48	8.30	14	62	516	97.36	338	36.90
3	डकैती	17	1	11.11	0	1	8	100.00	8	47.06
4	लूट	446	15	4.98	94	109	192	67.13	145	32.51
5	व्यपहरण/अपहरण	2070	930	64.85	37	967	467	92.66	636	30.72
6	बलात्कार	1204	353	41.82	1	354	490	99.80	360	29.90
7	बलवा	386	47	14.20	3	50	281	98.94	55	14.25
8	नकबजनी	2795	101	4.47	1468	1569	689	31.94	537	19.21
9	चोरी	13710	690	5.72	9217	9907	2161	18.99	1642	11.98
10	अन्य भा.द.सं.	80036	23115	33.92	1880	24995	43142	95.82	11899	14.87
11	योग भा.द.सं.	102451	25408	29.38	12721	38129	48338	79.17	15984	15.60

○ एफ.आर. अन्य- अंतिम रिपोर्ट अदमपता/अदमसबूत।

वर्ष 2011 एवं 2012 में (माह जुलाई) तक सम्पति सम्बन्धी अपराधों के चालानी, अदम वकूआ एवं बरामदगी प्रतिशत की तुलनात्मक स्थिति निम्न है :-

क्र. सं.	शीर्षक	अदम वकू प्रतिशत		चालानी प्रतिशत		बरामदगी प्रतिशत	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	डकैती	0.00	11.11	83.33	100.00	59.84	55.55
2	लूट	10.46	4.98	67.88	67.13	55.76	71.68
3	नकबजनी	4.53	4.47	32.70	31.94	39.90	36.18
4	चोरी	5.85	5.72	21.84	18.99	56.09	57.04
5	योग भा.द.सं.	28.02	29.38	80.03	79.17	54.00	55.38

भा.द.सं. के तहत माह जुलाई 2012 में वर्ष 2011 के सापेक्ष जिलेवार दर्ज अपराधों की तुलनात्मक स्थिति एवं निस्तारण, प्रतिवेदन में संलग्न तालिका 'क' पृष्ठ 8 से 11 एवं 'ख' पृष्ठ 12 से 17 पर है।

वर्ष 2012 में माह जुलाई तक नकबजनी तथा कुल सम्पति सम्बन्धी अपराधों में बरामदगी प्रतिशत की जिलेवार स्थिति तालिका 'च' पर है।

स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

आलोच्य माह, जून 2012 एवं जुलाई 2011 में स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत की गई कार्यवाही की तुलनात्मक स्थिति निम्न है :-

स्थानीय एवं विशेष अधिनियम- माहवार तुलनात्मक स्थिति (माह जुलाई 2011, जून 2012 एवं जुलाई 2012)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग			कमी/वृद्धि		प्रतिशत	
		जुलाई 2011	जून 2012	जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012
1	एक्साईज एक्ट	1037	1114	1419	382	305	36.84	27.38
2	जुआ एक्ट	1267	1079	1175	-92	96	-7.26	8.90
3	आर्म्स एक्ट	369	351	500	131	149	35.50	42.45
4	एन.डी.पी.एस. एक्ट	117	73	124	7	51	5.98	69.86
5	एक्सप्लोजिव एक्ट	36	43	32	-4	-11	-11.11	-25.58
6	ई.सी.एक्ट	28	21	23	-5	2	-17.86	9.52
7	अन्य एक्ट	2481	2931	3252	771	321	31.08	10.95
8	योग	5335	5612	6525	1190	913	22.31	16.27

स्थानीय एवं विशेष अधिनियम- वर्षवार तुलनात्मक स्थिति वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 (माह जुलाई तक)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग (माह जुलाई तक)			कमी/वृद्धि		प्रतिशत	
		2010	2011	2012	2010 से 2012	2011 से 2012	2010 से 2012	2011 से 2012
1	एक्साईज एक्ट	7126	8330	8269	1143	-61	16.04	-0.73
2	जुआ एक्ट	8807	8469	9300	493	831	5.60	9.81
3	आर्म्स एक्ट	2653	2891	3094	441	203	16.62	7.02
4	एन.डी.पी.एस. एक्ट	732	853	692	-40	-161	-5.46	-18.87
5	एक्सप्लोजिव एक्ट	300	275	318	18	43	6.00	15.64
6	ई.सी.एक्ट	161	157	163	2	6	1.24	3.82
7	अन्य एक्ट	10488	14479	22095	11607	7616	110.67	52.60
8	योग	30267	35454	43931	13664	8477	45.14	23.91

स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत जुलाई 2012 में वर्ष 2011 के सापेक्ष जिलेवार की गई कार्यवाही की तुलनात्मक स्थिति तालिका 'घ' पर दर्शायी गई है।

निस्तारण स्थानीय एवं विशेष अधिनियम, वर्ष 2012 (माह जुलाई तक)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग	एफआर अदम वकू झूठ	अदमवकू प्रतिशत	एफ. आर अन्य	कुल एफआर	चालान	चालानी प्रतिशत	पेन्डिंग अनुसंधान	पेन्डेन्सी प्रतिशत
1	एक्साईज एक्ट	8269	1	0.01	22	23	7935	99.72	311	3.76
2	जुआ एक्ट	9300	2	0.02	0	2	9282	100.00	16	0.17
3	आर्म्स एक्ट	3094	6	0.20	7	13	2938	99.76	143	4.62
4	एन.डी.पी.एस. एक्ट	692	1	0.22	8	9	454	98.27	229	33.09
5	एक्सप्लोजिव एक्ट	318	3	1.01	4	7	291	98.64	20	6.29
6	ई.सी.एक्ट	163	8	7.69	2	10	94	97.92	59	36.20
7	अन्य एक्ट	22095	8766	43.39	1470	10236	9965	87.14	1894	8.57
8	योग एक्ट	43931	8787	21.30	1513	10300	30959	95.34	2672	6.08

महिला अत्याचार
राजस्थान में महिला अत्याचार सम्बन्धी अपराधों की तुलनात्मक स्थिति निम्न है:-

महिला अत्याचार माहवार तुलनात्मक स्थिति
(माह जुलाई 2011, जून 2012 एवं जुलाई 2012)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग			कमी/वृद्धि		प्रतिशत	
		जुलाई 2011	जून 2012	जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012
1	दहेज मृत्यु	52	43	44	-8	1	-15.38	2.33
2	दहेजआत्महत्याका दुष्प्रेरण	17	22	16	-1	-6	-5.88	-27.27
3	महिला उत्पीडन(498-A)	1380	1291	1574	194	283	14.06	21.92
4	बलात्कार	196	187	205	9	18	4.59	9.63
5	छेड़छाड़	254	197	211	-43	14	-16.93	7.11
6	व्यपहरण / अपहरण	277	281	277	0	-4	0.00	-1.42
7	अन्य	92	61	86	-6	25	-6.52	40.98
8	कुल योग	2268	2082	2413	145	331	6.39	15.90

महिला अत्याचार वर्षवार तुलनात्मक स्थिति
वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 (माह जुलाई तक)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग (माह जुलाई तक)			कमी/वृद्धि		प्रतिशत	
		2010	2011	2012	2010 से 2012	2011 से 2012	2010 से 2012	2011 से 2012
1	दहेज मृत्यु	267	311	274	7	-37	2.62	-11.90
2	दहेज आत्महत्या का दुष्प्रेरण	104	119	95	-9	-24	-8.65	-20.17
3	महिला उत्पीडन (498-A)	6719	7062	8205	1486	1143	22.12	16.19
4	बलात्कार	968	1146	1204	236	58	24.38	5.06
5	छेड़छाड़	1414	1544	1366	-48	-178	-3.39	-11.53
6	व्यपहरण / अपहरण	1608	1729	1730	122	1	7.59	0.06
7	अन्य	456	555	537	81	-18	17.76	-3.24
8	कुल योग	11536	12466	13411	1875	945	16.25	7.58

- महिला अत्याचार के तहत जुलाई 2012 में वर्ष 2011 के सापेक्ष जिलेवार दर्ज अपराधों की तुलनात्मक स्थिति तालिका "ग" पर दर्शायी गई है।

निस्तारण स्थिति महिला अत्याचार
(वर्ष 2012 माह जुलाई तक)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग	एफआर अदम वकू	अदमवकू प्रतिशत	एफ आर अन्य	कुल एफआर	चालान	चालानी प्रतिशत	पेन्डिंग अनुसंधान	पेन्डेन्सी प्रतिशत
1	दहेज मृत्यु	274	35	20.00	0	35	140	100.00	99	36.13
2	दहेज आत्म हत्या का दुष्प्रेरण	95	13	19.40	0	13	54	100.00	28	29.47
3	महिला उत्पीडन (498- A)	8205	3314	50.60	2	3316	3234	99.94	1655	20.17
4	बलात्कार	1204	353	41.82	1	354	490	99.80	360	29.90
5	छेड़छाड़	1366	351	27.29	0	351	935	100.00	80	5.86
6	व्यपहरण / अपहरण	1730	811	67.36	32	843	361	91.86	526	30.40
7	अन्य अभियोग	537	110	26.70	6	116	296	98.01	125	23.28
8	कुल योग	13411	4987	47.32	41	5028	5510	99.26	2873	21.42

अनुसूचित जाति अत्याचार

आलोच्य माह, जून 2012 एवं जुलाई 2011 में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार सम्बन्धी पंजीबद्ध अभियोगों की तुलनात्मक स्थिति निम्न है:-

अनुसूचित जाति अत्याचार- माहवार तुलनात्मक स्थिति

(माह जुलाई 2011, जून 2012 एवं जुलाई 2012)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग			कमी/वृद्धि		प्रतिशत	
		जुलाई 2011	जून 2012	जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012
1	हत्या	8	6	9	1	3	12.50	50.00
2	गम्भीर चोट	2	3	6	4	3	200.00	100.00
3	बलात्कार	26	17	20	-6	3	-23.08	17.65
4	गम्भीर क्षति	4	6	3	-1	-3	-25.00	-50.00
5	पीसीआर एक्ट	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	अन्य भा.द.सं.	513	444	507	-6	63	-1.17	14.19
7	3एससी/एसटी एक्ट	9	10	8	-1	-2	-11.11	-20.00
8	कुल योग	562	486	553	-9	67	-1.60	13.79

अनुसूचित जाति अत्याचार वर्षवार तुलनात्मक स्थिति

वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 (माह जुलाई तक)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग (माह जुलाई तक)			कमी/वृद्धि		प्रतिशत	
		2010	2011	2012	2010 से 2012	2011 से 2012	2010 से 2012	2011 से 2012
1	हत्या	25	36	36	11	0	44.00	0.00
2	गम्भीर चोट	28	36	34	6	-2	21.43	-5.56
3	बलात्कार	116	130	118	2	-12	1.72	-9.23
4	गम्भीर क्षति	21	19	21	0	2	0.00	10.53
5	पीसीआर एक्ट	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	अन्य भा.द.सं.	2631	2703	2921	290	218	11.02	8.07
7	3 एससी/एसटी एक्ट	61	61	62	1	1	1.64	1.64
8	कुल योग	2882	2985	3192	310	207	10.76	6.93

अनुसूचित जाति अत्याचार के अन्तर्गत माह जुलाई 2012 में वर्ष 2011 के सापेक्ष जिलेवार दर्ज अपराधों की तुलनात्मक स्थिति तालिका 'ग' पर दर्शायी गई है।

निस्तारण वर्ष 2012 (माह जुलाई तक)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग	एफआर अदम वकू	अदमवकू प्रतिशत	एफआर अन्य	कुल एफआर	चालान	चालानी प्रतिशत	पेन्डिंग अनुसंधान	पेन्डेन्सी प्रतिशत
1	हत्या	36	3	21.43	0	3	11	100.00	22	61.11
2	गम्भीर चोट	34	3	12.50	0	3	21	100.00	10	29.41
3	बलात्कार	118	31	39.74	0	31	47	100.00	40	33.90
4	गम्भीर क्षति	21	5	50.00	0	5	5	0.00	11	52.38
5	पी.सी.आर. एक्ट	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
6	अन्य भा.द.सं.	2921	1359	64.75	1	1360	739	99.86	822	28.14
7	3एससी/एसटी एक्ट	62	40	83.33	0	40	8	100.00	14	22.58
8	कुल योग	3192	1441	63.40	1	1442	831	99.88	919	28.79

अनुसूचित जनजाति अत्याचार

आलोच्य माह, जून 2012 एवं माह जुलाई 2011 में अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार सम्बन्धी पंजीबद्ध अभियोगों की तुलनात्मक स्थिति निम्न है:-

अनुसूचित जनजाति अत्याचार माहवार तुलनात्मक स्थिति (माह जुलाई 2011, जून 2012 एवं जुलाई 2012)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग			कमी/वृद्धि		प्रतिशत	
		जुलाई 2011	जून 2012	जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012	जुलाई 2011 से जुलाई 2012	जून 2012 से जुलाई 2012
1	हत्या	2	3	2	0	-1	0.00	-33.33
2	गम्भीर चोट	2	2	3	1	1	50.00	50.00
3	बलात्कार	3	7	4	1	-3	33.33	-42.86
4	गम्भीर क्षति	0	0	1	1	1	100.00	100.00
5	पीसीआर एक्ट	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	अन्य भा.द.सं.	114	80	117	3	37	2.63	46.25
7	3एससी/एसटी एक्ट	0	2	4	4	2	400.00	200.00
8	कुल योग	121	94	131	10	37	8.26	39.36

अनुसूचित जनजाति अत्याचार वर्षवार तुलनात्मक स्थिति वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 (माह जुलाई तक)

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग (माह जुलाई तक)			कमी/वृद्धि		प्रतिशत	
		2010	2011	2012	2010 से 2012	2011 से 2012	2010 से 2012	2011 से 2012
1	हत्या	13	11	9	-4	-2	-30.77	-18.18
2	गम्भीर चोट	19	12	11	-8	-1	-42.11	-8.33
3	बलात्कार	25	32	35	10	3	40.00	9.38
4	गम्भीर क्षति	4	7	2	-2	-5	-50.00	-71.43
5	पीसीआर एक्ट	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	अन्य भा.द.सं.	663	668	689	26	21	3.92	3.14
7	3 एससी/एसटी एक्ट	17	11	19	2	8	11.76	72.73
8	कुल योग	741	741	765	24	24	3.24	3.24

अनुसूचित जनजाति अत्याचार निस्तारण स्थिति वर्ष 2012 (माह जुलाई तक)

क्रसं	शीर्षक	दर्ज अभियोग	एफआर अदम वकू	अदमवकू प्रतिशत	एफआर अन्य	कुल एफआर	चालान	चालानी प्रतिशत	पेन्डिंग अनुसंधान	पेन्डेन्सी प्रतिशत
1	हत्या	9	0	0.00	0	0	4	100.00	5	55.56
2	गम्भीर चोट	11	0	0.00	0	0	6	100.00	5	45.45
3	बलात्कार	35	6	24.00	0	6	19	100.00	10	28.57
4	गम्भीर क्षति	2	1	100.00	0	1	0	0.00	1	50.00
5	पी.सी.आर. एक्ट	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
6	अन्य भा.द.सं.	689	325	63.48	0	325	187	100.00	177	25.69
7	3एससी/एसटी एक्ट	19	12	80.00	0	12	3	100.00	4	21.05
8	कुल योग	765	344	61.10	0	344	219	100.00	202	26.41

- अनुसूचित जनजाति अत्याचार के अंतर्गत माह जुलाई 2012 में वर्ष 2011 के सापेक्ष जिलेवार दर्ज अपराधों की तुलनात्मक स्थिति तालिका 'ग' पर दर्शायी गई है।

निरोधात्मक कार्यवाही

आलोच्य माह, जून 2012 एवं जुलाई 2011 में तथा वर्ष में गत वर्ष की तुलना में निरोधात्मक प्रावधानों के तहत की गई कार्यवाही की तुलनात्मक स्थिति निम्न है।

माहवार तथा वर्ष में अब तक की गई निरोधात्मक कार्यवाही की तुलनात्मक स्थिति

क्र.सं.	शीर्षक	माहवार कार्यवाही			वर्ष में कार्यवाही		व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही				
		जुलाई 2011	जून 2012	जुलाई 2012	वर्ष 2011	वर्ष 2012	व्यक्तियों की संख्या	पाबन्द	रिहा/ बरी	ड्रॉप	पेन्डिंग कोर्ट
1	107 / 151 द.प्र.सं.	14747	13579	17616	78147	83280	212538	186031	12	449	26046
2	109 द.प्र.सं.	2361	739	1008	14808	7219	8642	8427	0	6	209
3	110 द.प्र.सं.	1646	819	1475	10739	9215	9215	7858	0	62	1295
4	122 द.प्र.सं.	188	24	52	542	283	525	295	0	0	230
5	133 द.प्र.सं.	65	31	76	479	286	520	219	0	4	297
6	145 द.प्र.सं.	58	32	71	310	258	1152	655	0	0	497
7	एच.ओ. एक्ट	4	0	0	27	9	9	3	0	0	6
8	60 पुलिस एक्ट	5523	5646	6709	40090	39228	40574	37769	0	0	2805
9	एन. एस. ए.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मानवाधिकार

वर्ष 2011 एवं 2012 में मानवाधिकार सम्बन्धी प्राप्त परिवादों की स्थिति निम्नानुसार है:-

परिवाद निस्तारण

वर्ष	प्राप्त परिवाद	निस्तारण	पैण्डिंग
2011	224	164	60
2012 (जुलाई तक)	221	78	143

सड़क दुर्घटना

क्र.सं.	वर्ष	कुल सड़क दुर्घटनाएँ	मृतक	घायल
1	2011	23245	9232	28666
2	2012 (जुलाई तक)	14044	5662	17238

माह जुलाई 2012 में कुल 1974 सड़क दुर्घटनाएँ घटित हुई जबकि गत माह में 2040 एवं जुलाई 2011 में 1859 सड़क दुर्घटनाएँ घटित हुई थी। गत माह की अपेक्षा कमी एवं 2011 की अपेक्षा दुर्घटनाओं में वृद्धि रही है।

राज्य में वर्ष 2012 माह जुलाई तक कुल 14044 सड़क दुर्घटनाएँ घटित हुई जबकि गत वर्ष में इसी अवधि तक 14144 सड़क दुर्घटनाएँ घटित हुई थी, गत वर्ष की अपेक्षा 100 (-0.70 %) दुर्घटनाओं की कमी रही है।

घोषित अपराधी/मफरूर

वर्ष 2012 में अब तक 1107 भगौड़े 250 घोषित अपराधी तथा 9537 स्थायी वारंटी प्राप्त हुए। जिनमें से वर्ष 2012 में अब तक 1001 भगौड़े, 302 घोषित अपराधी एवं 9456 स्थाई वारंटियों का निस्तारण किया गया।

माह में जिलेवार गिरफ्तार एवं शेष रहे वांछित अपराधियों की जिलेवार स्थिति प्रतिवेदन में तालिका 'ड' पर है।

उपलब्धियाँ माह जुलाई— 2012

हत्या:—

- दिनांक 03.07.2012 को जिला उदयपुर थाना भीण्डर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या किये जाने के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान 6 अभियुक्तों को नामजद कर गिरफ्तार किया।
- दिनांक 05.07.2012 को जिला चित्तौड़गढ़ थाना शम्भूपुरा पुलिस ने एक लड़की की संदेहास्पद मृत्यु के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान दो अभियुक्तों को नामजद कर गिरफ्तार किया।
- दिनांक 19.07.2012 को जिला झालावाड़ थाना पिडावा पुलिस को सूचना मिली की ग्राम रूपपुरा में सिर व पैर कटी लाश पड़ी है। उक्त सूचना पर अभियोग दर्ज कर दौराने अनुसंधान एक अभियुक्त को नामजद कर गिरफ्तार किया।
- दिनांक 20.07.2012 को जिला करौली थाना सदर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति की कुचल कर हत्या किये जाने के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान 2 अभियुक्तों को नामजद कर गिरफ्तार किया।
- दिनांक 24.07.2012 को जिला दौसा थाना रामगढपचवारा पुलिस ने दिनांक 14.06.2012 को एक महिला व एक पुरुष की हत्या कर उनके शरीर से सोने-चाँदी के जेवर ले जाने के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान 6 अभियुक्तों को नामजद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है।

लूट:—

- दिनांक 01.07.2012 को जिला जयपुर ग्रामीण थाना कालाडेर पुलिस को जरिये टेलिफोन सूचना मिली की मुलजिम मुकेश शोराण वगैरा परिवारी के भाई की बोलेरो किराये पर ले गये जिन्होंने मेरे भाई की हत्या कर लाश कुएँ में डाल दी व गाडी लूट कर भाग गये आदि के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूटी गई बोलेरो बरामद की।
- दिनांक 07.07.2012 को जिला अजमेर थाना पुष्कर पुलिस ने 4 लाख रुपये लूटने के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान 3 अभियुक्तों के कब्जे से 3.82 लाख रुपये बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

नकबजनी:—

- दिनांक 01.07.2012 को जिला गंगानगर थाना अनुपगढ पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि में सेन्ध लगाकर 12 तोला सोना, 7 हजार रुपये नकद व एक मोबाईल चोरी के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान 2 अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गया मालमसरूका कीमतन लगभग 3.50 लाख रुपये बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 13.07.2012 को जिला अजमेर थाना पुष्कर पुलिस ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय होकरा का ताला तोडकर कम्प्युटर व एलसीडी चोरी के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान 4 अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गया मालमसरूका 5 कम्प्युटर, एक एलसीडी व एक प्रिन्टर कीमतन 2.50 लाख रुपये का बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 14.07.2012 को जिला जयपुर दक्षिण थाना सांगानेर सदर पुलिस ने नकबजनी के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान एक अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया मालमसरूका 2 किलोग्राम चाँदी के आभूषण एवं 1,70,900 /—रुपये नकद बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 15.07.2012 को जिला अजमेर थाना अलवरगेट पुलिस ने हिना गार्डन के पास मुकेश ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोडकर सोने-चाँदी के गहने ले जाने के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान 2 अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गया मालमसरूका कीमतन 3.60 लाख रुपये का बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

जालीनोट:—

- दिनांक 04.07.2012 को जिला अलवर थाना गोविन्दगढ पुलिस ने बैंक में एक अभियुक्त के कब्जे से 11 नोट 500—500 के प्रचलन के आरोप में बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 09.07.2012 को जिला गंगानगर थाना रायसिंहनगर पुलिस को जरिये टेलिफोन सूचना मिली की वैरायटी स्टोर की दुकान पर गत रात्रि को उधारी के बदले एक व्यक्ति एक-एक हजार के 8 नकली नोट

देकर गया है। जिसके साथ 3 अन्य व्यक्ति भी हैं। उक्त सूचना पर दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान 4 अभियुक्तों के कब्जे से 87 नोट हजार—हजार रुपये के बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

धोखाधड़ी:-

- दिनांक 21.07.2012 को जिला पाली थाना सुमेरपुर पुलिस ने 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी के दर्ज अभियोग में दौराने अनुसंधान एक अभियुक्त के कब्जे से 8 लाख रुपये बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

ईनामी अभियुक्त:-

- दिनांक 02.07.2012 को जिला जोधपुर पूर्व थाना उदयमन्दिर पुलिस ने दिनांक 14.06.12 को हाई कोर्ट परिसर से पुलिस पर फायरिंग कर भागने वाले भंवरी देवी अपहरण काण्ड में अभियुक्त कैलाश जाखड़ को गिरफ्तार किया। जिस पर 50 हजार रुपये का ईनाम घोषित था।
- दिनांक 19.07.2012 को जिला धौलपुर थाना सरमथुरा पुलिस ने सूत्र सूचना पर रमदा के जंगल में हथियार सहित 6—7 व्यक्ति बैठे दिखाई दिये। जिन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। बदमाश फायरिंग करते हुए घने जंगलों की तरफ भागे जिनमें से पुलिस ने एक व्यक्ति को एक पचफेरा 315 बोर मय 5 कारतूस के गिरफ्तार किया तथा मौके से 8 खाली खोखे 315 बोर बरामद किये। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज भरतपुर की ओर से 4000/—रुपये का ईनाम घोषित था।
- दिनांक 20.07.2012 को जिला बाड़मेर थाना सदर पुलिस ने दिनांक 01.01.2011 को दिनेश मांजू हत्या काण्ड में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जिस पर महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर द्वारा 4000/—रुपये का ईनाम घोषित था।

चोरी:-

- दिनांक 10 व 23.07.2012 को जिला बाड़मेर थाना गुढामालानी पुलिस ने गुढामालानी व धोरीमन्ना क्षेत्र में विद्युत ट्रान्सफार्मर की चोरी के दर्ज अभियोगों में दौराने अनुसंधान 2 अभियुक्तों के कब्जे से 6 ट्रान्सफार्मर कीमतन 2.20 लाख रुपये बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

वाहन चोरी:-

- दिनांक 06.07.2012 को जिला गंगानगर थाना जवाहरनगर पुलिस ने दौराने नाकाबन्दी दो अभियुक्तों के कब्जे से चुराई गई 3 बोलेरो व 1 पीक अप डाला कीमतन लगभग 20 लाख रुपये की बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 08.07.2012 को जिला चित्तौड़गढ़ थाना सदर पुलिस ने सूत्र सूचना पर दौराने गश्त दो अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गई दो मोटरसाईकिलें बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जिनकी निशादेही से कुल 8 मोटरसाईकिलें कीमतन 5.60 लाख रुपये की बरामद की।

अवैध शराब:-

- दिनांक 01, 05, 06, 14 व 28.07.2012 को जिला बाड़मेर थाना गुढामालानी, सदर व शिव पुलिस ने 4 वाहनों में अवैध रूप से परिवहन करते हुए व दो ढाणियों में अवैध रूप से छुपाई गई कुल 384 कार्टून, 1233 बोतल, 14498 पक्के अंग्रेजी शराब एवं 67 कार्टून, 5319 टीन बीयर बरामद कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 02.07.2012 को जिला जोधपुर पूर्व थाना मथानिया पुलिस ने दौराने नाकाबन्दी एक वाहन में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 293 कार्टून अंग्रेजी शराब एवं 113 कार्टून बीयर कीमतन 1.50 लाख रुपये की बरामद की।
- दिनांक 03.07.2012 को जिला जालोर थाना करड़ा पुलिस ने एक वाहन में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 3588 बोतल, 18816 पक्के अंग्रेजी शराब एवं 1680 टीन बीयर बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 06.07.2012 को जिला उदयपुर थाना प्रतापनगर पुलिस ने एक वाहन की अज्ञात ट्रक द्वारा एक्सीडेंट कर भागने के उपरान्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन की तलाशी में 545 कार्टून अंग्रेजी शराब एवं 260 कार्टून बीयर बरामद की।

- दिनांक 06.07.2012 को जिला अजमेर थाना जवाजा व गांधीनगर पुलिस ने दो वाहनों में अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा 696 कार्टून अंग्रेजी शराब कीमतन लगभग 21 लाख रुपये की बरामद कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 08.07.2012 को जिला सीकर थाना दांतरामगढ पुलिस ने सूत्र सूचना पर एक ट्रेलर में से हरियाणा व अरुणाचल प्रदेश निर्मित अवैध शराब 6144 बोतल व 9984 पक्के कीमतन 17.28 लाख रुपये की बरामद की।
- दिनांक 09.07.2012 को जिला जैसलमेर थाना सागड व जैसलमेर पुलिस ने सूत्र सूचना पर दौराने नाकाबन्दी दो वाहनों में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 1270 कार्टून अंग्रेजी शराब व बीयर कीमतन 35 लाख रुपये की बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 12, 27 व 28.07.2012 को जिला डूंगरपुर थाना बिछीवाड़ा पुलिस ने सूत्र सूचना पर दो वाहनों में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 1316 कार्टून अंग्रेजी शराब कीमतन 15 लाख रुपये की बरामद कर 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 17.07.2012 को जिला हनुमानगढ थाना नोहर पुलिस ने सूत्र सूचना पर एक वाहन में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 80 पेटी देशी शराब बरामद कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 18.07.2012 को जिला जयपुर ग्रामीण थाना चंदवाजी पुलिस ने दौराने गश्त व नाकाबन्दी एक वाहन में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 553 कार्टून विभिन्न मार्का अंग्रेजी शराब कीमतन 13 लाख रुपये की बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 19.07.2012 को जिला जैसलमेर थाना नोख पुलिस ने सूत्र सूचना पर दौराने नाकाबन्दी एक ट्रक में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 751 कार्टून अंग्रेजी शराब व बीयर कीमतन 40 लाख रुपये की बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 19.07.2012 को जिला अलवर थाना नीमराना पुलिस ने एक वाहन में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 975 पेटी अंग्रेजी शराब कीमतन 50 लाख रुपये की बरामद कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 21 व 30.07.2012 को जिला झुन्झुनू थाना सूरजगढ पुलिस ने सूत्र सूचना पर दौराने नाकाबन्दी दो वाहनों में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 609 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 22.07.2012 को जिला चूरू थाना राजगढ पुलिस ने एक वाहन में अवैध रूप से परिवहन करते हुए 1788 बोतल, 7920 पक्के अंग्रेजी शराब एवं 2424 केन बीयर बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

राज्य में माह जुलाई 2012 में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 1419 प्रकरण दर्ज कर 1438 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर 115405 बोतल अंग्रेजी शराब, 19795 बोतल देशी शराब 5230 बोतल कच्ची शराब एवं 40458 बोतल बीयर बरामद की गई।

राज्य में वर्ष 2012 माह जुलाई तक आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 8269 प्रकरण दर्ज कर, 8472 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर 740208 बोतल अंग्रेजी शराब, 108948 बोतल देशी शराब, 44259 बोतल कच्ची शराब एवं 171132 बोतल बीयर बरामद की गई।

मादक पदार्थ:-

- दिनांक 06.07.2012 को जिला चित्तौड़गढ थाना सदर पुलिस ने सूत्र सूचना पर दो वाहनों में अवैध रूप से परिवहन करते हुए 12 थैलियों में 30.9 किलोग्राम अफीम बरामद कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 09.07.2012 को जिला जयपुर ग्रामीण थाना कोटपुतली पुलिस ने एक वाहन में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 200 कट्टों में 3784 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद किया।
- दिनांक 14.07.2012 को जिला हनुमानगढ थाना हनुमानगढ जंक्शन पुलिस ने दौराने नाकाबन्दी एक वाहन में अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा 14 कट्टों में 560 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

- दिनांक 20.07.2012 को जिला चित्तौड़गढ़ थाना चित्तौड़गढ़ पुलिस ने सूत्र सूचना पर बस स्टेण्ड चित्तौड़गढ़ से 3 अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से परिवहन की जा रही 10.00 किलोग्राम अफीम बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 20.07.2012 जिला पाली थाना कोतवाली पुलिस ने 4 अभियुक्तों के कब्जे से अवैध 23.590 किलोग्राम अफीम का दूध कीमतन 10.50 लाख रुपये बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 30.07.2012 को जिला चूरू थाना राजगढ़ पुलिस ने एक वाहन में अवैध रूप से परिवहन करते हुए 5.5 लाख रुपये का डोडा पोस्ट चूरा बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

राज्य में माह जुलाई 2012 में एन.डी.पी.एस. एक्ट के 124 प्रकरण दर्ज कर, 160 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, 0.309 कि.ग्राम स्मैक, 0.233 कि. ग्राम ब्राउन शुगर, 0.725 कि.ग्राम चरस, 142.801 कि.ग्राम अफीम, 118.636 कि०ग्रा० गांजा व 7174.240 कि०ग्रा० डोडा पोस्ट एवं अन्य सामग्री जब्त की गई।

राज्य में वर्ष 2012 माह जुलाई तक एन.डी.पी.एस. एक्ट के 692 प्रकरण दर्ज कर 831 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, 4.180 कि.ग्राम स्मैक, 0.339 कि.ग्राम ब्राउनशुगर, 6.017 कि.ग्राम हेरोईन, 8.921 कि.ग्राम चरस, 547.809 कि०ग्रा० अफीम, 301.104 कि०ग्रा० गांजा व 123814.407 कि०ग्रा० डोडा पोस्ट एवं अन्य सामग्री जब्त की गई।

अवैध हथियार :-

- दिनांक 12.07.2012 को जिला उदयपुर थाना फतहनगर पुलिस ने सूत्र सूचना पर अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करते हुए 5 अभियुक्तों के कब्जे से अवैध चार देशी कट्टे, तीन पिस्टल, तीन रिवाल्वर, एवं 14 कारतूस बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 30.07.2012 को जिला उदयपुर थाना डबोक पुलिस ने परिवादी के साथ आये 3 अभियुक्तों से जब्त शुदा एक इंग्लैण्ड निर्मित पिस्टल एवं 2 तलवार बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

राज्य में माह जुलाई 2012 में आर्म्स एक्ट के तहत 500 प्रकरण दर्ज कर 521 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर 25 बन्दूकें, 99 रिवाल्वर/कट्टे, 237 कारतूस व धारदार हथियार बरामद किये गये।

राज्य में वर्ष 2012 में माह जुलाई तक आर्म्स एक्ट के तहत 3094 प्रकरण दर्ज कर 3160 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर 144 बन्दूकें, 452 रिवाल्वर/कट्टे, 877 कारतूस बरामद किये गये।

अवैध विस्फोटक :-

- दिनांक 12.07.2012 को जिला बाड़मेर थाना समदड़ी पुलिस ने एक अभियुक्त के कब्जे से अवैध विस्फोटक 3 किलोग्राम सफेद बारूद, 44 डेटोनेटर एवं 5 फीट फ्यूज वायर बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 28.07.2012 को जिला झुन्झुनू थाना बुहाना पुलिस ने ट्रेक्टर में कम्प्रेसर लगाकर 5 किलोग्राम शोरा पोटेशियम नाईट्रेट, 10 जिलेटिन छड़, 70 डेटोनेटर व 3 फ्यूज वायर बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

राज्य में माह जुलाई 2012 में एक्सप्लोजिव एक्ट के अन्तर्गत 32 प्रकरण दर्ज कर 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर 415 जिलेटिन, 485 डेटोनेटर तथा काफी मात्रा में अन्य संबंधित सामग्री एवं उपकरण बरामद किये।

राज्य में वर्ष 2012 में माह जुलाई तक एक्सप्लोजिव एक्ट के अन्तर्गत 318 प्रकरण दर्ज कर 330 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर 13546 जिलेटिन, 8617 डेटोनेटर तथा काफी मात्रा में अन्य संबंधित सामग्री एवं उपकरण बरामद किये।

जुआ/सट्टा:-

- दिनांक 12.07.2012 को जिला नागौर थाना कोतवाली पुलिस ने सूत्र सूचना पर बासनी ग्राम में सार्वजनिक स्थान जुआ खेलते हुए 14 अभियुक्तों के कब्जे से 1,30,210 रुपये की जुआ राशि, एक जीप, एक बोलेरो, एक सेन्ट्रो कार व 6 मोटरसाईकिले बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 14.07.2012 को जिला गंगानगर थाना केसरीसिंहपुर पुलिस ने सूत्र सूचना पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 13 अभियुक्तों के कब्जे से 3.50 लाख रुपये की जुआ राशि बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- दिनांक 27.07.2012 को जिला टोंक थाना बरोनी पुलिस ने सूत्र सूचना पर वृत्ताधिकारी निवाई के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 11 अभियुक्तों के कब्जे से 3,16,400/-रुपये की जुआ राशि बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

राज्य में माह जुलाई 2012 में जुआ एक्ट के अन्तर्गत 1175 प्रकरण दर्ज कर, 2287 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर 33 लाख 02 हजार 203 रुपये की जुआ राशि बरामद की गई।

राज्य में वर्ष 2012 में माह जुलाई तक जुआ एक्ट के अन्तर्गत 9300 प्रकरण दर्ज कर 17140 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर, 1 करोड 73 लाख 96 हजार 489 रुपये की जुआ राशि बरामद की गई।

विविध:-

- दिनांक 21.07.2012 को जिला बारां थाना अटरू पुलिस ने एक अभियुक्त के कब्जे से फंदा लगाकर एक हिरण की हत्या किये जाने पर मृत हिरण बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उपसंहार

आलोच्य माह के मासिक अपराध प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट है कि माह में प्रदेश के आपराधिक परिदृश्य में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है एवं राज्य की अपराध स्थिति सामान्य एवं नियंत्रण में रही है।